**FINANCIAL EXPRESS** 



## KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED

(Formerly Known as KURLON LIMITED) (CIN: U17214KA1962PLC001443) Read. Office: # N-301, 3rd Floor, North Block, Manipal Centre. 47 Dickenson Road, Bangalore - 560 042. Phone: 080 - 4031 3131, E-mail: secretary@manipal.com

### NOTICE OF RECORD DATE - BUYBACK OF SHARES

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 91 of The Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Board of Directors of the Company at its meeting held on Friday 3rd May 2024, noted that the shareholders have approved the buyback of shares of the Company via postal ballot the equity shares of face value of Rs. 10 each fully paid, being offered at a price of Rs. 1,300 per share.

The Company has further fixed the record date as Tuesday, 21st May 2024 to determine the shareholders eligible to receive the Letter of Offer and the Tender Form for the buyback of shares.

For KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED (Formerly Known as Kurlon Limited) Sd/- Susheela Y. Bungale Date: 14-05-2024 Place: Bangalore Company Secretary

## PRIOR PUBLIC NOTICE

Public Notice is hereby issued under Direction 42.3 of Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company – Scale Based Regulation) Directions, 2023 ("RBI NBFC Directions") for intention to sell and transfer ownership / control of Pyxis Finvest Limited (Company), a Non-Banking Finance Company (NBFC) registered with the Reserve Bank of India (RBI) under registration number N.13.01840 dated 30-August-2006 and bearing CIN L65990MH2005PLC157586.

Mr. Uttam Bharat Bagri, an Indian Resident individual bearing Income Tax Permanen Account Number AAEPB6014D residing in Mumbai.

Reasons for such sale or transfer of ownership/control:

The existing promoters of the Company being JBCG Advisory Services Private Limited (Transferor) bearing CIN U74110MH2016PTC287730 have executed Share Purchase Agreement dated 19-December-2023 with the Transferee to sell their entire holding of 65,72,000 equity shares (representing 57.13%) of the Company as a strategic business decision. Following this transaction, there will be change in Management (Board of Directors) of the company.

In compliance with RBI NBFC Directions, prior approval has been obtained from the RBI as evidenced by their letter reference DoS.CO.RSG No. S1030/02.13.001/2024-25 dated 10-May-2024. The proposed transfer of ownership (by sale of shares) and control will take place after thirty days have elapsed following the publication of this public notice.

further clarifications/ information/ objections, kindly contact the company at emai pyxisfinvest@gmail.com or by post at registered office address at Level 9 (Unit 801) Centrum House, CST Road, Vidya Nagari Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400098.

**Limited - Transferor** 

PAN AAEPB6014D DIN 00387814 Place: Mumbai

Date: 13-May-2024

(This Is Only An Advertisement For Information Purposes And Not A Prospectus Announcement. Not For Distribution Outside India.)

# SILKFLEX SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED

Our Company was originally incorporated on May 13, 2016 as "Silkflex Polymers (India) Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the status of the Company was changed to public limited Company and the name of our Company was changed from "Silkflex Polymers (India) Private Limited" to "Silkflex Polymers (India) Limited" vide fresh certificate of incorporation dated December 21, 2023 by the Registrar of Companies, Kolkata. The Corporate Identification Number of our Company is U51909WB2016PLC215739. For further details on incorporation and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 155 of the Prospectus.

Registered Office: Daga Complex, Sulati Jaladhulagori, Sankrail, Howrah - 711 302, West Bengal, India Tel: +91 9674912615 | E-mail: investors@silkflexindia.in | Website: www.silkflexindia.in

Contact Person: Mr. Sourabh Sharma, Company Secretary and Compliance Officer PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. TUSHAR LALIT KUMAR SANGHAVI, MS. URMI RAJ MEHTA,

"The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on Emerge Platform of NSE (NSE EMERGE)."

M/S. TUSHAR LALITKUMAR SANGHAVI HUF AND M/S. LALITBHAI H SANGHVI HUF

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 34,82,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED ("SPIL" OR "OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹52/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹42/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1,810.64 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 1,78,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 92.56 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 33,04,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 52/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1,718.08 LAKHS ("NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.00% AND 28.47% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 250 OF THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.2 TIMES OF THE FACE VALUE

## ISSUE

**Limited - Company** 

**Shailendra Apte** 

DIN 00017814

## **ISSUE OPENED ON: TUESDAY, MAY 07, 2024 ISSUE CLOSED ON: FRIDAY, MAY 10, 2024**

#### **RISK TO INVESTORS:**

Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above

2. The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below:

Sr. No.	Name of the Promoters	No of Equity Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi	66,65,450	6.81
2.	Ms. Urmi Raj Mehta	48,750	10.77
3.	M/s Tushar Lalitkumar Sanghavi HUF	9,10,000	6.18
4.	M/s Lalitbhai H. Sanghvi HUF	4,87,500	3.08

#### Investors are required to refer section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

Our Company has filed the Prospectus dated May 01, 2024 with the ROC, Kolkata (the "Prospectus"). The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited i.e., NSE Emerge, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated April 30, 2024. NSE is the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is to be commenced on May 15, 2024 (Subject to receipt of listing and trading approvals from the NSE). The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public is initially made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public is made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the irrespective bank accounts and / or UPI IDs, in case of RIIs, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same

### SUBSCRIPTION DETAILS

The Net Issue has received 34,418 applications before technical rejections for 12,27,48,000 Equity Shares resulting in 37.15 times subscription. The details of the applications received in the Net Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

## **Detail of the Applications Received**

N.	Gr	220	Less: Re	ejections"	V	alid
Category	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares
Non-Retail Investors	3,390	6,06,92,000	36	1,88,000	3,354	6,05,04,000
Retail Individual Investors	31,028	6,20,56,000	830	16,60,000	30,198	6,03,96,000
TOTAL	34,418	12,27,48,000	866	18,48,000	33,552	12,09,00,000

\*This includes 312 applications for 6,24,000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by

## Note:

No. of Shares

Applications

Director

The Net Issue does not include 1,78,000 Equity Shares reserved for Market Maker, which was subscribed by 1.00 time.

Total No. of

- 2. There were 866 Technical Rejections for 18,48,000 Equity Shares. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange NSE on May 13, 2024.
- A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawais): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 1.78,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	T0000000000000000000000000000000000000	% to Total
1,78,000	1	100.00	1,78,000	100.00	1,78,000	1:1	1,78,000	100.00

B) Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.56 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under: Allocation per Applicant

	Shares Applied	Total	Rounding off	Rounding off	to the Applicant		Silaies Allotteu	Total
2000 30,198 100.0	6,03,96,000	100.00	54.71	2000	25	914	16,52,000	100.00

C) Allocation to Other than Retails Category (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Non-Retail Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.62 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Proportionate

Applica for	Received	Iutai	olidies Applied	iviai	available	Rounding off	Rounding off	to the r	чринсани	allocated/alloted
4,000	2,253	67.17	90,12,000	14.89	2,46,063	109.22	2,000	41	751	2,46,000
6,000	213	6.35	12,78,000	2.11	34,894	163.82	2,000	17	213	34,000
8,000	139	4.14	11,12,000	1.84	30,362	218.43	2,000	15	139	30,000
10,000	111	3.31	11,10,000	1.83	30,307	273.04	2,000	5	37	30,000
12,000	50	1.49	6,00,000	0.99	16,382	327.64	2,000	4	25	16,000
14,000	26	0.78	3,64,000	0.60	9,939	382,27	2,000	5	26	10,000
16,000	36	1.07	5,76,000	0.95	15,727	436.86	2,000	2	9	16,000
20,000	179	5.34	35,80,000	5.92	97,748	546.08	2,000	49	179	98,000
22,000	22	0.66	4,84,000	0.80	13,215	600.68	2,000	7	22	14,000
30,000	17	0.51	5,10,000	0.84	13,925	819.12	2,000	7	17	14,000
38,000	7	0.21	2,66,000	0.44	7,263	1,037.57	2,000	4	7	8,000
40,000	16	0.48	6,40,000	1.06	17,475	1,092.19	2,000	9	16	18,000
50,000	10	0.30	5,00,000	0.83	13,652	1,365.2	2,000	7	10	14,000
52,000	4	0.12	2,08,000	0.34	5,679	1,419.75	2,000	3	4	6,000
58,000	6	0.18	3,48,000	0.58	9,502	1,583.67	2,000	5	6	10,000

The Board of Directors of the Company at its meeting held on May 13, 2024, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories on or before May 14, 2024. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking of funds will process on or prior to May 14, 2024. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the Emerge Platform of NSE within 3 working days from the Closure of the Issue. The trading is proposed to be commenced on May 15, 2024 subject to receipt of listing and trading approvals from NSE.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated May 01, 2024 ("Prospectus").

## INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at www.bigshareonline.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole Applicant, Serial number of the Application Form, Number of Shares Applied for and Bank Branch where the Application had been lodged and payment details at the address given below:

**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** 

Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai - 400 093, Maharashtra, India | Telephone: 022 - 6263 8200 | E-mail: ipo@bigshareonline.com Investor Grievance E-mail: investor@bigshareonline.com | Website: www.bigshareonline.com Contact Person: Mr. Vinayak Morbale | SEBI Registration Number: INR000001385

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated May 01, 2024. For Silkflex Polymers (India) Limited

> On Behalf of the Board of Directors Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi

Total No.

of shares

Designation: Chairman & Managing Director DIN: 07476030

LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED

Silkflex Polymers (India) Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata on May 01, 2024. The Prospectus is available on websites of the Company, the NSE and the Lead Manager at www.silkflexindia.in, www.nseindia.com, www.shreni.in respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high-risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities law. Accordingly, the Equity Shares are offered or sold (i) within the United States to persons reasonably believed to be qualified institutional investors (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act and (ii) Outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities act and applicable laws of the jurisdiction where such offers and sales occur.

## **CHANGE IN NBFC CONTROL AND MANAGEMENT**

Particulars of Transferee:

This notice is being issued jointly by Transferee, Transferor and the Company. For any

For JBCG Advisory Services Private For Pyxis Finvest Transferee

Uttam Bharat Bagri Kapil Bagla

Place: Mumbai

# **ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED**

(formerly known as Alan Scott Industries Limited) Corporate Identification Number: L33100MH1994PLC076732

Registered Office: Unit no. 302, Kumar Plaza, 3rd Floor, Near Kalina Masjid, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai - 400029. Maharashtra, India. | Tel: +91 61786000/01, 9867644930

E-mail: alanscottcompliance@gmail.com | Website: thealanscott.com | Contact person: Mr. Shankar Madva

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined here shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated June 16, 2023 filed with BSE Limited ("BSE").

### FINAL DEMAND-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer dated June 16, 2023 ("Letter of Offer"), a Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares who have not paid the call money or part thereof, pursuant to the First and/or Second & Final Call Money Notice dated November 27, 2023 and February 26, 2024, and physical copy of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice along with the detailed instructions and payment slip, has been sent through permitted modes of dispatch at the registered address of all those holders of partly paid-up equity shares, who have not paid the First and Second & Final call money (or a part thereof). The Company has completed the dispatch on May 10, 2024.

The Board of Director ("Board"), duly authorized by the Board, has on Thursday, May 9, 2024, approved sending of a Final Demand-cum-Forfeiture Notice for payment of First and Second & Final call amount of ₹ 10.00 (including share premium of ₹ 6.5) towards the First Call and ₹10.00 (including share premium of ₹ 7.00) as First and Second & Final Call money ("Final Demand cum-Forfeiture Notice"), to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and/or Second & Final Call Money remains unpaid.

Accordingly, the Final Demand-cum-Forfeiture Notice has been served providing the details given below:

Payment Period	From	10	Duration			
rayment renou	Tuesday, May 14, 2024	Tuesday, May 28, 2024	15 days			
	Cheque or Demand Draft payable to:	2000-200-200-00-00-00-00-00-00-00-00-00-				
Mode of Payment	Alan Scott Call Money - Escrow Collection - R A/c (For resident Shareholders)					
	Alan Scott Call Money – Escrow Collection – NR A/c (for Non-resident Shareholders)					

Shareholder pay through cheque/demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder; DP ID-Client ID/ Folio No; and No, of partly paid-up equity shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented. Please note that, failure to pay the First and Second & Final Call Money pursuant to the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, as aforesaid, shall render the partly paid-up

equity shares (to the extent that the First and Second & Final Call Money was not paid), including the application amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

Shareholders may also note that: The ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares of face value ₹10 each (₹3.50 paid-up and ₹7.00 paid up) has been suspended by the Stock Exchanges. Further the ISIN IN9273F01012 and IN9273F01020 representing partly paid-up equity shares has been suspended by National Securities Depository Ltd ("NSDL") and Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL")

- The process of corporate action for converting the partly paid-up equity shares to the fully paid-up ordinary shares under the present ISIN INE273F01022 for the existing fully paid-up ordinary shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed, on a best effort basis, within two to three weeks from the last date of payment of the First and/or Second & Final Call Money stipulated under this Final Demand-cum-Forfeiture Notice. Upon completion of the corporate action, the partly paid-up equity shares shall be converted into fully paid-up equity shares and would be credited to ISIN INE273F01022, allotted by NSDL/CDSL.
- In case of non-receipt of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate Final Demand-cum-Forfeiture Notice to the Registrar, or may also download the same from the Company's website: www.thealanscott.com or the Registrar's website: www.purvashare.com. In such a case, however, the shareholder has to fill the DP ID-Client ID/folio Number, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and
- Second & Final Call Money. IV. The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in respect of the Final Demand-cum-Forfeiture Notice may be addressed to: Purva Sharegistry (India) Private Limited (Unit: Alan Scott Enterprises Limited) at the address Office 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, India, Telephone No - 022 49614132 | 022 49700138 | 022 35220056; E-mail: newissue@purvashare.com; Website: www.purvashare.com; Contact Person: Ms. Deepali Dhuri: SEBI Registration Number: INR000001112.

For Alan Scott Enterprises Ltd.

Date: May 13, 2024 Saloni Suresh Jain

# CHALET Chalet Hotels Limited

CIN: L55101MH1986PLC038538.

Registered office: Raheja Tower, Plot No. C-30, Block 'G' Next to Bank of Baroda, Bandra Kurla Complex, Bandra. Mumbai 400 051 Email ID: investorrelations@chalethotels.com. website: www.chalethotels.com

## EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024

	CONSOLIDATED							
		Quarter Ended	Year Ended					
Particulars	31 March 2024	31 December 2023	31 March 2023	31 March 2024	31 March 2023			
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)			
Total Income	4,244.07	3,798.87	3,457.83	14,370.38	11,779.54			
EBITDA before exceptional items	1,890.08	1,722.15	1,602.71	6,043.78	5,023.04			
Profit before income tax	990.26	886.52	714.59	2,693.53	2,728.29			
Profit for the period / year	824.40	706.42	366.31	2,781.81	1,832.90			
Total Comprehensive Income for the period / year	819.98	705.09	361.45	2,773.42	1,828.26			
Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 per share)	2,054.74	2,053.95	2,050.25	2,054.74	2,050.25			
Other Equity	-	-	34	16,458.68	13,369.14			
Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)								
Basic (*not annualised) (in Rs.)	*4.01	*3.44	*1.79	13.54	8.94			
Diluted (*not annualised) (in Rs.)	*4.01	*3.44	*1.79	13.53	8.94			

## 1) Key numbers of Standalone Financial Results

		Quarter Ended			
Particulars	31 March 2024 (Audited)	31 December 2023 (Unaudited)	31 March 2023 (Audited)	31 March 2024 (Audited)	31 March 2023 (Audited)
Total Income	4,210.50	3,783.89	3,469.51	14,186.63	11,793.81
Profit before income tax	990,23	910.59	749.64	2,684.81	2,772.53
Profit for the period / year	818.36	731.87	401.52	2,782.82	1,877.65

- 1) The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the guarter and year ended 31 March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2024 are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at www.chalethotels.com.
- May2024. 3) The above results are in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as prescribed under Section 133

2) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13

of the Companies Act 2013, read with the relevant Rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

(CIN - L55101MH1986PLC038538) Sanjay Sethi Managing Director & CEO

For Chalet Hotels Limited

(DIN. 00641243)

Place: Mumbai Date: 13 May 2024

financialexp.epapr.in

Place: Howrah

Date: May 13, 2024

पर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित

सीआईएन : L65110TN2014PLC097792 पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिगटन रोड, चेटपेत,चेन्नई-600031. दुरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.

( अचल सम्पत्ति हेत्)

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदार, सह-कर्जदारों तथा जमानतियों 1. रिव शंकर सैनी. 2. रामा किशनलाल से 15.02.2024 तक सचना में लिखित राशि रु. 15.71.935.47/-(रुपये पन्द्रह लाख इकहत्तर हजार नौ सौ पैंतीस एवं सैंतालीस पैसे मात्र) का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पनर्भगतान करने को कहते हुए 16.02.2024 को एक माँग सचना निर्गत की थी।

कर्जदारों के राशि के पूनर्भगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शिक्तयों के उपयोग में 7 मई. 2024 को सम्पत्ति पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन रु. 15,71,935.47/- (रुपये पन्द्रह लाख इकहत्तर हजार नौ सौ पैंतीस एवं सैंतालीस पैसे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभत आस्तियों को छडाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

#### अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. टी.एफ-1, तीसरी मंजिल का समस्त भाग, माप 50 वर्ग मीटर (कवर्ड एरिया), प्लॉट नं. 27ए पर निर्मित, प्लॉट क्षेत्रफल 125 वर्ग गज, खसरा नं. 2/1 एमआई से सम्बन्धित, राधा गार्डन, ग्राम: हरसांव, परगना-डासना, तहसील एवं जिला : गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश्टा-201001, तथा सीमाएं : पूर्व : प्लॉट अन्य मालिक, पश्चिम : रास्ता 24 फीट चौड़ा, उत्तर : रास्ता 20 फीट चौड़ा, दक्षिण : प्लॉट अन्य मालिक।

दिनांक : 7 मई, 2024 स्थान : गाजियाबाद ऋण खाता सं. : : 18853626.

अधिकत प्राधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पर्व का कैपिटल फर्स्ट बैंक लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित

## UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

द्वितीय तल, जीएमटीटी बिल्डिंग डी-7, सेक्टर 3, नोएडा (उ.प्र.) 201301 कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत उन्नीवन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पटित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियाँ के उपयोग में कर्जदार(रों)/जमानती(यों) से सुचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का पुनर्भगतान करने को कहते हुए मांग सुचना

कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता के राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता को तथा जनसामान्य को सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथि पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की

ओर आमन्त्रित किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति

के साथ कोई संव्यवहार यहां नीचे प्रत्येक खाते वे प्रभार के अध्यधीन होगा।	र सम्मुख वर्णित राशियों तथा ब्याज एवं अन	य प्रभारी/व्ययों के लिए उच्चीवन स्माल फाइने	स बैंक लिमिटेड के
कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा कब्जा करने की तिथि	मांग सूचना के अनुसार राशि
	आजातीय प्रकार जान संस्ता ४११ जारत	मांग सचना की निश्चिः ३1,01,2024	E 15 33 533/-

		401 (0164	Aid out mits
<ol> <li>रणवीर उर्फ रणवीर बंसल पुत्र हरोहरन मकान नंबर 2सी, सहीद प्यारे लाल कॉलोनी, लाजपत नगर,</li> </ol>	The state of the s	मांग सूचना की तिथि: 31.01.2024 कब्जे की तारीख: 10.05.2024	रु. 15,33,533/- तिथि 30.01.2024
गाजियाबाद, उ.प्र 201005, 2. टीना चौधरी पत्नी रणबीर उर्फ रणबीर बंसल मकान नंबर 2सी, शहीद प्यारे लाल कॉलोनी, लाजपत नगर, गाजियाबाद, उ.प्र201005	ग्राम कथेड्रा, परगना लोनी, तहसील एवं जिला यानी 41.805 वर्ग मीटर, सीमाएं : पूर्व : अन्य व	ठा प्लॉट, पश्चिम : अन्य का प्लॉट, उत्तर : अन्य	पर ख्वाज

2) मदन लाल कुमार उर्फ मदन कुमार पुत्र पेमा राम जी उर्फ प्रेमा राम निवासी टीवीके रोड, केबी क्रॉस, तिम्रुर, कर्नाटक - 572201, इसके अलावाः रायको का बास, लूनी, जोधपुर, राजस्थान-342802; 3) दीपक शर्मा पुत्र अनिल शर्मा निवासी 21ई/194 संग्	आवासीय सम्पत्ति मीम सूचना की तिथिः 05.12.2023 लॉट नं. 82, कहने की तारीखः 18.04.2024 इसरा नं. 143/2, सारथी सरोवर, ग्राम पाल, जोधपुर, राजस्थान हा समस्त भाग, माप 51.66 वर्ग गज, सीमाएं : पूर्व : प्लॉट नं. 01, पश्चिम : रोड, उत्तर : प्लॉट नं. 81, दक्षिण : प्लॉट नं. 83. सम्बन्धित है।
--	--

मांग सूचना तिथि और राशि

कर्जदार(ओ) / सह-

लॉट नं. 82. कब्जे की तारीख: 18.04.2024 8,68,698/ धसरा नं. 143/2, सारथी सरोवर, ग्राम पाल, जोधपुर, राजस्थान तिथि का समस्त भाग, माप 51.66 वर्ग गज, सीमाएं : पूर्व : प्लॉट नं. 03.12.2023 101, पश्चिम : रोड, उत्तर : प्लॉट नं. 81, दक्षिण : प्लॉट नं. 83. तक तथा उस प्रम्यत्ति गृहिया देवी पत्नी मदन लाल यानी आप में से नं. 1 से पर ख्वाज

गीतिक करने की तिथि

 श्री मोहम्मद शहरोज पुत्र गुल शनव्वर, मकान नंबर फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नं. 77 का समस्त मांग सुचना की विधि: 28.12.2023 27, गली नंबर 3, सब्जी मंडी के पास, कैला भट्टा, भाग, माप 82.32 वर्ग गज/68.82 वर्ग मीटर, कब्जे की **तारीख**: 10.05.2024 गाजियाबाद, उ.प्र. - 201001, 2. श्रीमती खुशनसिब खसरा नं. 779 में से, मदनी एन्कलेव, ग्राम मसूरी, परगना डासना, तहसील एवं जिला पत्री गुलासनावर उर्फ गुल शनावर मकान नंबर 27, गली गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित, सीमाएं इस प्रकार है : पूर्व : प्लॉट नं. 76, पश्चिम : अन्य नंबर 3, सब्जी मंडी के पास, कैला भट्टा, गाजियाबाद, का प्लॉट, उत्तर : प्लॉट नं. 73, दक्षिण : रास्ता 20 फीट चौड़ा। सम्पत्ति श्रीमती सृशनसीब पत्नी गुलासंबर यानी आप में से नं, 2 से सम्बन्धित। र.प. - 201001 ऋण खाता संख्या 2203210040000002 में

अधिकृत प्राधिकारी स्थान : दिल्ली/रा.रा.क्षे./राजस्थान तिथि : 14.05.2024

## अचल संपत्तियों की बिक्री हेतू ई-नीलामी हेतू सार्वजनिक सूचना

उद्योग विहार, फेज-4, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा) और शाक्षा कार्यालय 30/30ई. अपर ग्राउंड फ्लोर, शिवाजी गार्ग, नई दिल्ली - 110015 / विपुल अगोरा मॉल, पहली मंजिल क्षयांलय संख्या १२९ ए से १२९ डी, सेक्टर २८, एमजी रोड, गुड़गांय, पिन कोडरू १२२००२, हरियाणा कार्यालय संख्या १, पहली मंजिल, महालक्समी मेट्रो टॉकर, प्लॉट संख्या र 1. सेक्टर — 4. वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश — 201010 और " के पास कंधक अथलसम्पत्ति की विक्री विलीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभृतिक्रि खर्तन अधिनियम, 2002(इसमें आगे'अधिनियम'कडा गया है) के तहत।जबकि आईआईएफएल— एवएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ('एओ') ने निम्नलिखित ऋण खातों / प्रॉल्पेक्ट नंबर्स में अधिनियम की धारा 13(2) के तहर निम्न वर्षित सम्पत्ति /सम्पत्तिवों का कब्जा उनको आईआईएफएल— एवएफएल की बकाया राष्ट्रि की वसूली के लिए "जैसी हेजहा है एवं जैसी है जो है आजर' पर बेचने के अधिकार सहित प्राप्त कर लिया था। अबोहस्ताक्षरी हारा यह विज्ञी वेबसाइट www.iiflonchome.com पर उपलब्ध कराए गए ई—नीलामी लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

अचल सम्पत्ति / प्रतिभूत आस्ति का वर्गन

14	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि व जून 2024 1100 बजें—1400 बजें	ईएमडी अंतिम तिथि 18 जून 2024 अप. 5 बजे तक	\$2000000000000000000000000000000000000	गे तिथ्वि/सनय 100 वजे—1300 वजे
आईएल10044353)	धीवन रुपये मात्र) बोलीमृद्धि सशि रु. 25,000/— (पञ्चीस हजार रूपये मात्र)	पर स्थित संपत्ति का वह सारा हिस्सा और पार्शल लोनी, जिला गांकियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, 2019021 क्षेत्रफल का नाम (वर्ग कुट में): संपत्ति का प्रकार: कारपेट-एरिया, पिल्ट-अप-एरिया रांपति क्षेत्र- 437,00, 500.0	रु. 16,95,627/- (शोलह लाज पंजानदे हजार छह सी सत्ताईस रूपये मात्र)	धरीहर राष्ट्रि जम्म (ईएमडी) रु.1,52,600/- (एक लाख बादन इजार छह सौ रुपये गांज)
<ol> <li>श्रीन्स्ती राज सनी</li> <li>श्री सुनील पारचा (प्रॉक्पेक्ट नंबर</li> </ol>	06—दिसम्बर—2023 रु.16,28,054 /— (सोतह लाख जहाईस हजार और	कतेट लंबर मूजीएफ-4, बिग, कपरी पाठंड फ्लॉर, बिगा छल के अधिकार के, दारिने राध की निकली तरक, प्लॉट गंबर एफ-14, एसएलएफ येद विहार, डडबस्ट ग्राम लोगी, परगना और तारुसील	दिनांक 03-मई -2024 तक कृत बकाया	8.16.26,000 / - (पंदह ताख छन्मीस हजार रुपढे मात्र)
आईएल10421092)	बोलीवृद्धि गरि। रु. 20,000/ (बीस हजार रूपये मात्र)	का प्रकार भूमि-शेजकल, कारपेट-एरिया 406.00, 324.00	(छह लाख बासत हजार छह सी शीरा रूपये मात्र)	(ईएमडी) रु.43,700 / — (नेतालीश हजार सात सी रुज्ये मात्र)
t. अभित जी 2. श्रीमती स्वीटी 3. स्वीटी ज्यूटिक (ऑस्पेक्ट नंबर	12-अक्टूबर-2023 और रु.5.83.244 / - (पांच लाख तिरासी हजार दो सी चौवालीस रुपये मात्र)	खेलट नंबर 51, खाला नंबर 63, किला नंबर 33//16/2, 24/2, 25, 34//20, बान मोरा रसूलपुर, तह की संपत्ति वाले संपत्ति के सभी हिस्सी और पासंत। मन्नीर, दादा पीर, सोनीपत, हरियाण, भारत, 131101। क्षेत्रफल का मध्य (वर्ष फुट में), संपत्ति	काल ककामा	सं. 4.37,000/- (रुप्ये चार शतक रोतीस हजार मात्र) धरोहर राजि जम्म
आईएल10271126)	बोलीवृद्धि शशि रु. 40,000/— (घालीस हजार रूपये मात्र)	पार्कः किरण गार्वन एकसटेशनः, उत्तम नगरः नर्श्व दिरुतीः, 110059 क्षेत्रफल का माप् (दर्ग फुट में)-संपत्ति का प्रकारः भूमि-क्षेत्र, निर्मित-चप-क्षेत्र, कारपेट-एरिया संपत्ति क्षेत्र 450,00, 406,00, 382,00 ।	(सताईस लाख इकतालीस हजार तीन सौ इक्यायन रुपये मात्र)	धर्रोहर राशि जमा (ईएमडी) रु.2,53,900 / - (रुपये दो लाख शिरपन हजार भी शी मात्र)
<ol> <li>श्री जिंदिन सोनी</li> <li>श्रीमती स्नेड लगा क्षेत्री</li> <li>(प्रॉस्पेक्ट नंबर</li> </ol>	06-दिशम्बर-2023 एवं रः 27,22,471 /- (सताईस लाख बाईस हजार चार सी इकहतर रुपए मात्र)	शंपित का वह ताच हिरवा और पार्शल, जिसमें छत/छत छे बिना ऊपरी मंजिल का अधिकार है, निर्मित संपत्ति संस्था जीकाए/बी के अधिकार, मुस्तातिल नंबर-ब, किला नंबर-ब से बाहर, यांव मंटियाला और कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित है। जैन	26 अप्रैस 2024 दिनांक 03-गई -2024 सक कुल बकाया 7. 27,41,351/-	क 25.39,000 / - (पञ्चीच लाख उनचालीस कतार रूपये मात्र)
	बोलीवृद्धि राशि रु. 25,000/- (पञ्चीस हजार रूपये मात्र)	एकाटेशन के नाम से जाना जाता है, स्तीक-है, जनम नगर नई दिस्सी 110059। श्रेष्ठफल का माप (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार क्षेत्रफल-सम्पत्ति का शेष्ठफल: 450.00	(वीवीस लख्य क्रियासत इजार तील वी रौताशीरा रुपये गात्र)	इ. 2,16,000/- (दो लाख शोलह हजार रूपदे मात्र)
<ol> <li>श्री अधिनारा भट्ट</li> <li>श्रीकरी पूजा भट्ट</li> <li>(प्रॉस्पेक्ट नंबर आईएल10229260)</li> </ol>	06-दिसंबर-2023 और रु.23,39,392 / - (तेईस लाख उनवातीस हजार तीन सी बानवें रुपये मात्र)	कपरी घाउंड फ्लोर, बैंक साइड, (इबीएचक्), बिना छल के अधिकार वाली संपत्ति का व्ह लाच हिस्सा और पासंल, प्लॉट नंबर ई-15, खसच नंबर 538 और 359 से बाहर, ग्राम नवादा के क्षेत्र में स्थित हैं। दिल्ली, कीलोनी जिसे मणवली गाउँन	A malestonia (	र. 21.60.000 / — (इक्कीस लाख साठ हजार संदर्भ मात्र) धरोहर राशि जमा (ईएमडी)
गोपल (बॉस्पेक्ट नंबर आईएल10089223)	यस (बॉस्पेवट नंबर बोटीवर्टि वर्षि) कॉलोनी के रूप में जैन कॉलोनी, ब्लॉक-टी एक्स		रु. 20,18,003/- (स्पर्य बीस लाख अठारह हजार तीन भाव)	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) रु 1,84,000 / – (एक लाख चीरासी हजार स्त्यमें मात्र)
<ol> <li>श्री मुनीश ओवत्तय</li> <li>कीपसेक प्रोत्तवशन एण्ड एसेसरीज</li> <li>श्रीव्यति निधि</li> </ol>	06-दिसंबर-2023 और रु.18,97,765 / - (अद्वारह लाख सत्तानबे हजार सात सो पेंसठ रुपये मात्र)	खसरा नंबर 20/18 में से प्लॉट नंबर 59-ए वाली निर्मित संपत्ति के पीछे की ओर बिना छता/छत के पहली मण्डिल वाली संपत्ति का वह खारा डिल्ला और पालेल, जो गांव महिवाला की राजस्य संपत्ति में रिवल है, आबादी होंच के नाम से जाना जाता है	28 ऑस 2024 दिनांस 03-मई -2024 तक कुल बकाया	र-18.40,000 / - (रुपये अठानह लाख पालीस हजार मात्र)
910272) 910272)	बोलीवृद्धि राशि रु. 25,000 / –(पन्नीस हजार रूपये मात्र)	जाता हैए जलम नगर, नई दिल्ली, 110069। दोजफल माप [धर्म कीट में): बिक्री दोन्य क्षेत्र, कारपेट-क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र 495, 00, 405.00	(पीबैस ताख सतहतर हजार पांच शौ अक्रतीस रुपये गात्र)	र. 2,13,000/- (दो लाख सेरह हजार रूपमे मात्र)
1. श्री मुक्का कुमार 2. श्रीमती सुकृति निश्रा (प्रॉस्पेक्ट नंबर	रु.22,98,870 /— (बाईस लाख अवठानबे हजार आठ सी सत्तर रुपये मात्र)	निर्मित है. घल के अधिकार के साथ, संपत्ति संस्था ए-26 पर निर्मित, खसरा संख्या 541 से बाहर, गांव बिंदा पुर के क्षेत्र में रिष्टल, कॉलोनी जिसे केंग्रों तम पार्क, ब्लॉक के रूप में जाना	दिनांक 03-मई -2024 तक कृत क्कापा	रुपये गात्र) धरीहर राक्ति जन्म (हंएमडी)
कर्णदार(ओ) / गार्गटर(ओ)	17-सर्ववर-2023 और	संपत्ति का वह सारा हिस्सा और हिस्सा जो डीसार्ड मंजिल पर	27 अप्रैस 2024	रु.21,30,000 / - (इक्वरेस लाख टीस हजार

**मृगतान की विधि** : इंएमढी मृगतान केवल ऑनलाइन विधि से करने होंगे। मृगतान करने के लिए आप https://www.iiflenchome.com पर जाएं और केवल सम्पत्ति / प्रतिमृत आरित के लि पालका लिंक के माध्यम से गुगतान करें। **मीट** : हर सम्पत्ति के लिए एक अलग पुगतान लिंक है। आप सुनिश्चित करें कि आप उस-राम्पति / प्रतिगृत आरित का लिंक उपयोग कर रहे हैं जिसको आप रार्शजनिक नीजानी के मध्यम से खरीवना चाहतेहैं। [गलान के लिए सफल बोली के बाद, आपको नुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के मध्यम से करना होगा। खाता विवरण निम्नानुसार है : क) खाते का नाम : आईआईएफएल होन फाइनैंस लिमिटेड छ) बैंक का नाम : स्टेंबर्ड चार्टर्व बेंक लिमिटेड, ग) खाता लंबर : 9902879 प्रीरपेक्ट लंबर द्वारा अनुसरित, छ) आईएक्एशसीकीब :— एससीबीएल3008081 अ) बैंक पता : स्टेंबर्व सार्टर्ड

नियम और शर्ते :-

- 💈--गैलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदालाओं को अपना विवरण सेवा प्रदाता https://www.iiflonchome.com के पास पर्याप्त अग्निम में पंजीकृत करवाना होगा तथा लॉगइन खाता, लींगइनआईडी और पासवर्ड सुजित करना होगा। इन्छुक बोलीदाताओं को अपना'निविदाफार्म' ईएमडी के भुगतान विवरण, कंबाईसी तथा पैनकार्ड की प्रति के साथ उपरि वर्णित शाखा कार्यालय
- बोलीदाला अपनी ऑफर कालम' बोलीवृद्धि रात्ति' में वर्णितरात्ति के गुणजों में बढ़ा सकते हैं। नीलामी समाप्त होने से 5 मिनट पहले कोई बिंड आने पर समास्त्रिका रूमध स्वतः 5 मिनट आगे बढ चाएसा। लकत बोलीदाता को बोलीदाति की 25 प्रतिशत राशि (प्रंपमधी समायोजन के बाद) एओ द्वारा बोलीमुल्य स्वीकार करने के 24 घंटे के मीतर और बोली राशि की शेव 25 प्रतिशत राशि प्रतिभातनेनदार द्वारा विकी की पृष्टि की तिथि से 15 दिन के मीतर जन्म करनी होगी सभी जन्म और संगतान निर्धारित विधि से करने होगे।
- खरीदार को सम्पत्ति के साथ संबंधित उपकर, लागूस्टाम्प इपूटी, फीस तथा अन्य कानूनी कामा अर्थवा अन्य कावमा जैसीक म्युनिसियलकर, किजली प्रभार, भूमि तथा अन्य सामी अनुधंनी लागर्ने, प्रभार सभी करों तथा उपकरों लहित वहन करने होंगे। बोलीवालाओं कोई-मीलामी विकी प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अपनी बोली जन्म करने से पहले मीलामी विकी के विरसूत निवर्ण एवं सर्ती तथा आवेदन प्रस्त के लिए वेबलाइट
- https://www.iiflonehome.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने की सलाह दी जाती है। विस्तृत विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संगावित बोलीदाता संवाप्रदाता की ई-मेल आईडी : auction.hl@iifl.com सर्वार्ट हेल्यलाइननंबर
- / 1800 2672 499 पर सम्पर्ककरें। िकेसी सम्पत्तिः विकरण, सम्पत्तिः निरीक्षण और ऑनलाइन बिंड इत्यादि के संकंध मेपूछताछ के लिए आईआईएफएल एयएफएल टील फ्रीनंबर 1800 2872 400 पर सोमबार से शुक्रवार के बीच
- 09:30 वर्ज से 18:00 वर्ज तक कील करें अथवा ई-मेल : auction.hl@iifl.com को मेल लिखे। एतदद्वारा उपरोक्त कर्जकरों को सूचना दी जाती है कि मीतिक कच्चा लेते समय प्रतिभूत आरित में रखी धरेलू वरतुए र दिन के मीतर इटा लें, अध्यक्ष आईआईएफएल एवएफएल परिकारियों
- के जवीन सन्तरित की किसी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। ्रतद्वारा कर्जदर्ज को आगे सुदन्त दी जाती है कि उपरोक्त दस्तुए प्राप्त कर ने में शुरू की स्थिति में उनको विधि सम्मतदन में बेवा जाएगा।
- o. सफल बोलीदाता / नीलामी खरीदार द्वारा किसी भी घरण में निर्धारित समय के मीतर मुगतान में यूक की स्थिति में बिक्री रदद कर दी जाएगी तथा पडले जमा की जा घुकी राशि (ईएमडी सहित) जबा कर ली जाएगी और सम्पत्ति की बिक्री दोबान की जाएगी। एओं का बिना कोई कारण बलाए निविदा/नीलामी स्थिपित/निस्तल करने वा निवम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा/नीलामी के संकंप में किसी भी विवाद की

रियति में आईआईएफएल-एकएफएल के एओ का निर्णय अंतिम माना जाएगा सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (8) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदार को अधिसूचित किया जाता है कि उपरि वर्णित राशि अद्यंतन ब्यव्यत और अनुपंगी खर्ची के साथ निविदा / नीलामी की तिथि से पहले कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति बेची / नीलाम

की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित बसूल की जाएगी। स्थान : नई दिल्ली/सोनीयत/ गाजियाबाद, तिथि : 13 मई 2024 इस्ता./-प्रामिक्त अमिकारी, आईआईएफएल होन फाइनैंस लिमिटेड Criminal Court, Ludhiana

In The Court Of Ms. Lavepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana Kotak Mahindra Bank

Mis Shri Vakratunda Enterprises CNR NO: PBLD03-036941-2020 COMA/7252/2020

Notice To: 1) M/k Shri Vakratunda enterprises- address- through its auth. sign/prop. harish upasani n/o 192 ndrapun ke peeche, bharat narela shankari, bhopal, m.p 462001 Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the a beyone ad James berran evode bessens he ordrary way of service. Hence this roclamation under section 82 ORFC is ereby issued against you with a direction visioourt on 14-06-2024 at 10/00 ir.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in setbut of your part to appear as directed sterio the above and case will be heard nd determined as per law, in your bsence Given under my hand and the seal of the court. for details logan to: ttps://highcourtchd.gov.in/?trs=district notice&district=ludhisna.

JMIC Lochiana

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में ] केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

के मामले में

स्पाइस मिंट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (CIN:U92190DL2011PTC229515) जिसका पंजीकत कार्यालय:कार्यालय नं जी—28ए, मंगलम पैराडाइज मॉल, प्लॉट नंबर 8 मंगलम प्लेस, रोहिणी, सैक्टर-3, दिल्ली-110085 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी /याचिकाकर्ता तदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती हैं जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय** राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से "हरियाणा राज्य" म थानांतरित करने के लिए 06 मई 2024 को आयोजित रसाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव वे संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की गांग की गई है।

कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में **शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो. के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय मवन, सीजीओ कोंम्पलैक्स. नई दिल्ली-110003 पर पंजीकत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी मेजें । कार्यालय नं. जी–28ए, मंगलम पैराडाइज मॉल, प्लॉट नंबर 8 मंगलम प्लेस,

रोहिणी, सैक्टर-3, दिल्ली-110085

स्थानः दिल्ली

3,74,216.00/

21,12,2023

तक तथा उस

पर ख्याज

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से स्पाइस मिंट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड हस्ता /-दिनांक: 14.05.2024 अंक्र जैन (निदेशक)

डीआईएन:01859214

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

इंडिफ्लेवर फूड एण्ड बैवरेजस प्राइवेट लिमिटेड (CIN:U55101DL2012PTC232438)

जेसका पंजीकृत कार्यालय:**द कान नं. 218**, द सरी मंजिल मंगलम पैराँडाइज मॉल. मंगलम पैलेस सैक्टर—3, रोहिणी, नाहरपुर, दिल्ली—110085 में हैं, के मामले मे ....आवेदक कंपनी /याचिकाकर्ता

रतदहारा सार्वजनिक सुचना दी जाती है कि यह कंपनी ज्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "**राष्ट्रीय** राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" मे स्थानांतरित करने के लिए **06 मई 2024** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के पंदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रमायित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दुसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकत कार्यालय पते पर भी भेजें। द्कान नं. 218, दूसरी मंजिल मंगलम पैराडाइज मॉल, मंगलम पैलेस सैक्टर-3, रोहिणी, नाहरपुर, दिल्ली-110085

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से इंडिफ्लेवर फुड एण्ड बैवरेजस प्राइवेट लिमिटेड अंकर जैन (निदेशक) दिनांक: 14.05.2024 डीआईएन: 01859214 स्थान: दिल्ली

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में ) केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

आईटीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड CIN:U63000DL2015P1C285483) जिसका पंजीकत कार्यालय: मकान नं. 116 ब्लॉक बी पॉकेट 2, सैक्टर 16, रोहिणी, दिल्ली-110085 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी /याचिकाकर्ता

रतदद्वारा सार्वजनिक संघना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है. जिसमें कंपनी का पंजीकत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में श्थानांतरित करने के लिए 06 मर्ड 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पृष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उठिलखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें । मकान नं. 116, ब्लॉक बी पॉकेट 2, सैक्टर 16, रोहिणी, दिल्ली-110085

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से आईटीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हस्ता/-

अनुभव आनंद दिनांक: 14.05.2024 (निदेशक) स्थानः दिल्ली डीआईएन: 07834667 (This Is Only An Advertisement For Information Purposes And Not A Prospectus Announcement. Not For Distribution Outside India.)

# SILKFLEX SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED

Our Company was originally incorporated on May 13, 2016 as "Silkflex Polymers (India) Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the status of the Company was changed to public limited Company and the name of our Company was changed from "Silkflex Polymers (India) Private Limited" to "Silkflex Polymers (India) Limited" vide fresh certificate of incorporation dated December 21, 2023 by the Registrar of Companies, Kolkata. The Corporate Identification Number of our Company is U51909WB2016PLC215739. For further details on incorporation and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 155 of the Prospectus

> Registered Office: Daga Complex, Sulati Jaladhulagori, Sankrail, Howrah - 711 302, West Bengal, India Tel: +91 9674912615 | E-mail: investors@silkflexindia.in | Website: www.silkflexindia.in

Contact Person: Mr. Sourabh Sharma, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. TUSHAR LALIT KUMAR SANGHAVI, MS. URMI RAJ MEHTA. M/S. TUSHAR LALITKUMAR SANGHAVI HUF AND M/S. LALITBHAI H SANGHVI HUF

"The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on Emerge Platform of NSE (NSE EMERGE)."

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 34,82,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED ("SPIL OR "OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹52/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹42/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1,810.64 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 1,78,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 92.56 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 33.04,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 52/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1.718.08 LAKHS ("NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.00% AND 28.47% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 250 OF THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.2 TIMES OF THE FACE VALUE

## **ISSUE OPENED ON: TUESDAY, MAY 07, 2024 ISSUE CLOSED ON: FRIDAY, MAY 10, 2024**

RISK TO INVESTORS:

Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.

The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below:

Sr. No.	Name of the Promoters	Name of the Promoters No of Equity Shares held				
1.	Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi	66,65,450	6.81			
2.	Ms. Urmi Raj Mehta	48,750	10.77			
3.	M/s Tushar Lalitkumar Sanghavi HUF	9,10,000	6.18			
4.	M/s Lalitbhai H. Sanghvi HUF	4.87,500	3.08			

Investors are required to refer section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

Our Company has filed the Prospectus dated May 01, 2024 with the ROC, Kolkata (the "Prospectus"). The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited i.e., NSE Emerge, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated April 30, 2024. NSE is the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is to be commenced on May 15, 2024 (Subject to receipt of listing and trading approvals from the NSE). The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public is initially made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public is made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the irrespective bank accounts and / or UPI IDs, in case of RIIs, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same

#### SUBSCRIPTION DETAILS

The Net Issue has received 34,418 applications before technical rejections for 12,27,48,000 Equity Shares resulting in 37.15 times subscription. The details of the applications received in the Net Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

Detail of the Applications Received

	Gr	oss	Less: Re	ejections*	Valid		
Category	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares	
Non-Retail Investors	3,390	6,06,92,000	36	1,88,000	3,354	6,05,04,000	
Retail Individual Investors	31,028	6,20,56,000	830	16,60,000	30,198	6,03,96,000	
TOTAL	34,418	12,27,48,000	866	18,48,000	33,552	12,09,00,000	

\*This includes 312 applications for 6,24,000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by investors.

The Net Issue does not include 1,78,000 Equity Shares reserved for Market Maker, which was subscribed by 1.00 time.

- 2. There were 866 Technical Rejections for 18,48,000 Equity Shares. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange NSE
- A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 52/- per Equity Share. was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 1,78,000 Equity Shares The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Shares Applied	% to Total		to the Applicant		% to Total
1,78,000	1	100.00	1,78,000	100.00	1,78,000	1:1	1,78,000	100.00

B) Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.56 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares	No. of Applications	% to	Total No. of	% to	Allocation p	er Applicant	Datie of	Allottees	Total No. of	% to
Applied for	Received	Total	Shares Applied	Total	Before Rounding off	After Rounding off	to the A		Shares Allotted	100000000000000000000000000000000000000
2000	30,198	100.00	6,03,96,000	100.00	54.71	2000	25	914	16,52,000	100.00

C) Allocation to Other than Retails Category (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Non-Retail Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.62 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

% to Total No. of W. to Proportionate Allocation per Applicant

NO OF SHORES		W. 10	Lotol No of	W. to	The state of the s			Ratio of Allottees		
Applied for	Applications Received	% to Total	Shares Applied	% to Total	shares available	Before Rounding off	After Rounding off	L0000000000000000000000000000000000000	Anottees	of shares allocated/alloted
4,000	2,253	67.17	90,12,000	14.89	2,46,063	109.22	2,000	41	751	2,46,000
6,000	213	6.35	12,78,000	2.11	34,894	163.82	2,000	17	213	34,000
8,000	139	4.14	11,12,000	1.84	30,362	218.43	2,000	15	139	30,000
10,000	111	3.31	11,10,000	1.83	30,307	273.04	2,000	5	37	30,000
12,000	50	1.49	6,00,000	0.99	16,382	327.64	2,000	4	25	16,000
14,000	26	0.78	3,64,000	0.60	9,939	382.27	2,000	5	26	10,000
16,000	36	1.07	5,76,000	0.95	15,727	436.86	2,000	2	9	16,000
20,000	179	5.34	35,80,000	5.92	97,748	546.08	2,000	49	179	98,000
22,000	22	0.66	4,84,000	0.80	13,215	600.68	2,000	7	22	14,000
30,000	17	0.51	5,10,000	0.84	13,925	819.12	2,000	7	17	14,000
38,000	7	0.21	2,66,000	0.44	7,263	1,037.57	2,000	4	7	8,000
40,000	16	0.48	6,40,000	1.06	17,475	1,092.19	2,000	9	16	18,000
50,000	10	0.30	5,00,000	0.83	13,652	1,365.2	2,000	7	10	14,000
52,000	4	0.12	2,08,000	0.34	5,679	1,419.75	2,000	3	4	6,000
58,000	6	0.18	3,48,000	0.58	9,502	1,583.67	2.000	5	6	10,000

The Board of Directors of the Company at its meeting held on May 13, 2024, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants

The CAN and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories on or before May 14, 2024. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking of funds will process on or prior to May 14, 2024. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the Emerge Platform of NSE within 3 working days from the Closure of the Issue. The trading is proposed to be commenced on May 15, 2024 subject to receipt of listing and trading approvals from NSE.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated May 01, 2024 ("Prospectus").

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at www.bigshareonline.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole Applicant, Serial number of the Application Form, Number of Shares Applied for and Bank Branch where the Application had been lodged and payment details at the address given below:



Place: Howrah

Date: May 13, 2024

**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai - 400 093. Maharashtra. India | Telephone: 022 - 6263 8200 | E-mail: ipo@bigshareonline.com Investor Grievance E-mail: investor@bigshareonline.com | Website: www.bigshareonline.com

Contact Person: Mr. Vinayak Morbale | SEBI Registration Number: INR000001385 All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated May 01, 2024.

For Silkflex Polymers (India) Limited On Behalf of the Board of Directors

Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi

**Designation:** Chairman & Managing Director DIN: 07476030

LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED Silkflex Polymers (India) Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other

considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata on May 01, 2024. The Prospectus is available on websites of the Company, the NSE and the Lead Manager at www.silkflexindia.in, www.nseindia.com, www.shreni.in respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high-risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities law. Accordingly, the Equity Shares are offered or sold (i) within the United States to persons reasonably believed to be qualified institutional investors (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act and (ii) Outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities act and applicable laws of the jurisdiction where such offers and sales occur. AdBaaz

वैक, 90 एम.जी. रोड, फोर्ट, मुम्बई-400001.

# কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে ভোট অবাধ

রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক, আসানসোল দুয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে সোমবার অবাধ ও শান্তিতে ভোটগ্রহণ হয়। তবে রাজ্যের অন্যান্য ৭টি কেন্দ্রের তুলনায় আসানসোলে ভোট দানের শতকরা পরিমাণ বেশ কিছুটা কম। এদিন বিকেল ৫টা পর্যন্ত আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে ভোট পড়ে সরকারি হিসাবে ৬৯.৪৩%। যার মধ্যে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৬৬.৫০%, আসানসোল উত্তরে ৬৭.৭০%, বারাবনিতে ৭০.৯৫%, জামুড়িয়াতে ৭১.১৯%, কুলটিতে ৬৮.২৪%, পাণ্ডবেশ্বরে ৭১.২৬%, রানিগঞ্জে ৭১.২৫%। এদিন সকাল ৭টা নাগাদ বিভিন্ন অঞ্চলের বুথে দেখা যায় ভোটদানের জন্য মানুষের লম্বা এদিন সকালে আসানসোলের চেলিডাঙা অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট দেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। তিনি বলেন, 'ভোট দান, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই অধিকার প্রয়োগ করতেই ভোট দিতে এসেছি।' অন্যদিকে, এদিন সকাল ৯টা নাগাদ আসানসোলের এলআইসি বিল্ডিংয়ের ২৮১/৪৩ নং বুথে মা ও বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ভোট



দিতে আসেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। ভোটদানের পর তিনি বলেন, 'রবিবার রাতেই রানিগঞ্জে বিজেপির বুথ কর্মীদের মারধর করা হয়েছে। একইসঙ্গে বিজেপি কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভয় দেখানো হয়েছে।' পাশাপাশি সন্দেশখালির ঘটনাতেও প্রতিক্রিয়া দেন তিনি। এরপরই তিনি মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। অন্যদিকে, এর কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর আসতে শুরু করে পাণ্ডবেশ্বর লাউদোহা অঞ্চলে তৃণমূলের গুল্ডারা বুথ দখলের মাধ্যমে ভোট করাচ্ছে। যেখানে বিলপাহাডির অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলের বুথ থেকে বিজেপির পোলিং এজেন্টকে বের করে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে তৃণমূল আশ্রিত দৃদ্ধতীরা। এই খবর ভিডিও বার্তার

মাধ্যমে দেন বিজেপির জেলা সভাপতি বাপ্পা চ্যাটার্জি। তারপরই বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির সঙ্গে গাড়িতে চেপে দলের কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে তিনি রওনা দেন। তবে পাণ্ডবেশ্বর যাওয়ার আগেই হরিপুর বহুলা মোড়ে তাঁদের গাড়ি আটকে দেয় পুলিশ। সার্কেল ইন্সেপেক্টর নিজে এসে জিতেন্দ্র তিওয়ারির কাছে পাণ্ডবেশ্বরে ঢোকার বৈধ কাগজ দেখতে চান। জিতেন্দ্ৰ তিওয়ারি তাঁর বৈধ কাগজ দেখালেও তাঁর গাডি আটকে রাখায় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'তৃণমূলের ইশারাতেই এসব ঘটছে। বৈধ কাগজ থাকার পরও আমাকে পাণ্ডবেশ্বর যেতে দেওয়া হচ্ছে না। আসলে তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে।' তবে এরপর ওই অঞ্চলে রাক্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

১২৫নং বুথের ইভিএম মেশিন খারাপ হয়ে যাওয়ার খবর আসে। যার জেরে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ভোটগ্রহণ পর্ব থেমে যায়। এরফলে লাইনে দাঁডানো অনেক ভোটারই ফিরে যান। পরে নতুন ইভিএম মেশিন এনে ভৌটগ্রহণ পর্ব শুরু হয়। এদিন জামুড়িয়ার কেন গ্রামপঞ্চায়েতের ২২৫নং বুথে ভোট দেন ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী জাহানারা জামুড়িয়ার শ্যামলা গ্রামপঞ্চায়েতের বুড়ি ফুরফুরি কেন্দ্রীয়বাহিনীর সঙ্গে স্থানীয়দের ঝামেলা হয়। স্থানীয়দের বক্তব্য, বুথে অন্ধকার তাই বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে এই অভিযোগে কেন্দ্রীয়বাহিনীর সঙ্গে তাদের বচসা শুরু হয়। তবে এলাকায় শান্তিতে ভোট চলছিল। তারপরও কেন্দ্রীয়বাহিনীর সদস্যরা স্থানীয়দের ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, আসানসোলের এক বেসরকারি হোটেলে বসে সকাল থেকেই ভোট পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছিলেন বিজেপি প্রার্থী সরিন্দর আলুওয়ালিয়া। তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'দুয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাডা ভোট শান্তিতে চলছে। দিন শেষে ৭৫% ভোট পড়ার

এরপরই জামুড়িয়ার বেনালি গ্রামের

### তৃণমূল দল আসলে দালালদের পার্টি: সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

ভাস্কর বিশ্বাস, হাওড়া: সোমবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হন হাওড়ার বাম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। এদিন তিনি অভিযোগ তোলেন, 'বাংলার যুবরাজ বলছেন, সিএএ সমর্থন করতে। এই বক্তব্যে ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। বাংলার সংখ্যালঘু সমাজকে শুধুমাত্র বিভাজন করা নয়, তাদের বিজেপির কাছে বিক্রি করছে তৃণমূল। টিএমসি দলটি আসলে দালালদের পার্টি।' এদিন তিনি আরো বলেন, 'বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী হাওড়া পুরনিগমের সেসময়ের তৃণমূল বোর্ডের মেয়র থাকার সময় উনসানি সহ নানা সংখ্যালঘু এলাকায় এনপিআরের কাজ করেছিলেন। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে মোদীর একটা ভোট বাড়ানো। বিজেপি, তৃণমূলকে শেষ করতে হবে। বিজেপি শুকিয়ে গেছে। সেজন্য যুবরাজ বলছে সিএএকে সমর্থন করতে হবে। বিজেপিকে একটা ভোট দেওয়া মানে সংখ্যালঘ সমাজকে মোদীর কাছে বিক্রির চক্রান্তকে সমর্থন করা। এদিকে, বাম প্রার্থীর এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন মন্ত্রী অরূপ রায়। তিনি বলেন, '১৩ বছর ধরে আমরা বাংলায় শাসন করছি। আমাদের ২২টা সাংসদ রয়েছে। এই ভোটে ক'টা আসন পাব তা পরের কথা। সিপিএম যে বাংলায় ১টিও আসন পাবে না তা নিশ্চিত। ২০১১ সাল পর্যন্ত ৩৪ বছর ধরে বাংলায় শাসন করার পর ২০২৪ সালে যারা ১টিও সিট ধরে রাখতে পারে না তাদের প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।

## লোকসভায় বাংলায় ভাড়া করা তারকা প্রার্থী আর প্রচারকদের নিয়ে অভিযোগের বন্যা

উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা : এবার লোকসভা ভোটে বাংলায় ২ প্রধান রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ এমনই যে সরগরম গোটা পরিস্থিতি। বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ, এক চলচ্চিত্র অভিনেতাকে টাকা দিয়ে ভাড়া করে সারা রাজ্যে প্রচার চালানোর জন্য টিক করা হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ, গুজরাত থেকে টাকা দিয়ে ভাডা করে এনে দলের প্রার্থী করা হয়েছে। ২জনই অরাজনৈতিক ব্যক্তিষ। গত বিধানসভা ভোটে মুম্বইয়ের ব্যস্ত অভিনেতা মিঠন চক্রবর্তীকে বাংলায় এনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারে নামানো হয়েছিল। বিজেপি ওই ভোটে ৭৭টি আসন পেলেও 'মহাগুরু'র সিনেমার ডায়ালগ যোগ করা বক্তৃতা শুনতে প্রতিটি জনসভায় প্রচুর লোক হয়েছিল। এবারও লোকসভা ভোটে তাঁকে বাংলায় এনে রাজ্য জুড়ে বিজেপি প্রচার চালাচ্ছে। মিঠনের জনসভা ও রোড-শোয়ে ভালোই ভিড় হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। এব্যাপারে বিধানসভা ভোট থেকেই মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে তুণমূল কংগ্ৰেস। এই অভিযোগে বলা হচেছ, মিঠুন কোনোদিনই বিজেপির সদস্য নন। তাঁর ছেলের নামে ১টি মামলা রয়েছে। এই মামলার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য



বাংলায় ভোট প্রচারে তাঁকে ব্যবহার করছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। এছাড়াও মিঠনকে প্রচারের জন্য ৭ কোটি টাকা ও কপ্টারে যাতায়াতের খরচ দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে মিঠন যদি বিজেপির সদস্য হন, তবে এই জনপ্রিয় শিল্পীকে অন্য রাজ্যে ব্যবহার করা হল না কেন ? যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে মিথ্যা অভিযোগ বলে জানানো হয়েছে। এব্যাপারে মিঠুন চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত সচিব সঞ্জয় ভারমাকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'যা বলার বিজেপি দল বলতে পারে।' এদিকে. সোমবারই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী অভিযোগ করেন, ইউসুফ পাঠানকে টাকা দিয়ে তৃণমূল প্রার্থী করেছে। সংবাদমাধ্যমের সামনে অধীর চৌধুরী বলেন, 'আমার কাছে যা খবর আছে, চুক্তি ভিত্তিতে ভোট করতে এসেছেন তৃণমূলের বহরমপুরের প্রার্থী।



যেমন, শ্রীলঙ্কায় ৪কোটি না ৫ কোটি টাকায় আইপিএল খেলতে যান, এটাও তেমনই। আমার কাছে যা খবর, এখানে ভোট করতে আসার জন্য ১২ কোটি টাকার চক্তি হয়েছে। রাজস্তানে কেউ মারা থেলে কান্নার লোক না পেলে রুদালি ভাড়া করা হয়, এখানে ভোটালি আগামী দিনে চালু হবে।' এর অভিযোগের উত্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তা। কংগ্রেস যখন আজারউদ্দিনকে নামিয়েছিল তারা কত কোটি টাকা দিয়েছিল ?' তবে রবিবারই এক পোর্টালে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুরের প্রার্থী ইউসুফ পাঠান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশাংসা করেন। তিনি বলেন, 'আমি গুজরাতের বাসিন্দা, আর সেই গুজরাতের বাসিন্দা মোদীজী ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আরো ৫ বছর তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকবেন।

## বউবাজার বিস্ফোরণ কাণ্ডে জেলে বন্দি রশিদের আর্জি শুনবে হাই কোর্ট

উজ্জল দত্ত, কলকাতা : বউবাজার বিস্ফোরণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত রশিদ খানকে মুক্তি দেওয়া যায় কিনা, কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ কোর্টের গ্রীত্মকালীন অবকাশের পর ২৪ জুন বিবেচনা করবে। এরমধ্যেই ৩১ বছর জেল খাটা হয়ে গিয়েছে রশিদ খানের। টাডা আইনে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। মূলত, অভিযুক্তের বয়স, তার কোনোরকম অসামাজিক লোকজনের সঙ্গে এখনো যোগাযোগ আছে কিনা, রশিদ খানকে মুক্তি দিলে সমাজে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, এসব বিষয় খতিয়ে দেখবে কলকাতা হাই কোর্ট। তবে এই মামলায় অন্য এক সাজাপ্রাপ্ত জেলে অন্তরীণ মহম্মদ খালিদকে ২৪ জুন পর্যন্ত ছাড়ার সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। আপাতত রশিদের মামলাটি শুনানির জন্য নিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এপ্রিল মাসে বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের বেঞ্চ বউবাজার বোমা বিস্ফোরণ মামলায় সাজাপ্রাপ্ত মহম্মদ খালিদকে ৩১ বছর পর মুক্তির নির্দেশ দিয়েছিল। ওই নির্দেশ উল্লেখ করেই রশিদ খানেরও মুক্তির আর্জি জানানো হয় হাই কোর্টে। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের ১৬ মার্চ রাতে ২৬৭ নং বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের দোতলা ১টি বাড়ি ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে গুঁড়িয়ে যায়। ৬৯ জনের মৃত্যু হয়। ওই মামলায় কলকাতার সাট্টা কারবারের 'বেতাজ বাদশা' হিসেবে পরিচিত রশিদ খানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। পুলিশের তরফে বলা হয়, রশিদ খানের কাছে যে পরিমাণ বিস্ফোরক ছিল, তা দিয়ে গোটা কলকাতা আইনি জটিলতা রয়েছে বলে অ্যাডভোকেট জেনারেল



উড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। মহম্মদ খালিদ ওই রশিদেরই ছায়াসঙ্গী ছিল বলে জানা গেছে। ওই মামলায় তাকেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় আদালত। কয়েক বছর আগে খালিদ জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার দাবিতে রাজ্য সরকারের 'সেনটেন্স রিভিউ বোর্ডে' আবেদন করে। ওই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এরপর কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলে বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে ছাড়ার নির্দেশ দেয়। তবে রাজ্যের তরফে ওই নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে

দাবি করায় ১ মাসের জন্য ওই নির্দেশ কার্যকর করার ওপর স্থাগিতাদেশ জারি করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। সোমবার রশিদ খানের আইনজীবী আদালতে বলেন, 'সাজাপ্রাপ্ত রশিদ খানের বয়স ৭৬ বছর। ১৫ বারের বেশি প্যারোলে মুক্তি পেয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রে কোনওরকম ক্ষতিকর কিছু করেনি।' এই আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এই মর্মে জেল কর্তুপক্ষের কাছে তিনি আবেদন করতে পারেন যে, ৩১ বছর ধরে তিনি জেলে রয়েছেন। জেলে থাকার সময় তার ভালো ভূমিকা ছিল। তবে সেধরনের কোনও আইন কি রাজ্যে আছে?' রাজ্যের এবিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট নীতি আছে কিনা, অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তের কাছে জানতেও চেয়েছেন প্রধান বিচারপতি। কিশোর দত্ত জানান, 'রিভিউ বোর্ডের রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৯৩ সালে বিস্ফোরণের ঘটনায় ৬৯ জনের মৃত্যু হয়। ৯ অক্টোবর ২০২৩ সালে মেদিনীপুর জেল সুপার জানান, জেলে রশিদের ব্যবহার খুব ভালো। তবে কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, রশিদ খানকে ছাড়লে সমাজে তার প্রভাব পড়তে পারে। পরবর্তীতে ফের এলাকায় অশান্তি হতে পারে। যেভাবে মানুষের মধ্যে তিনি আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলেন সেদিকে তাকিয়ে তাকে ছাড়া উচিত নয়।' রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল আরো বলেন, 'রাজ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে সব জেলবন্দিদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতনের মতো অভিযোগ রয়েছে, তাদের সময়সীমা পূর্ণ না হওয়ার আগে ছাড়া হবে না। এই মর্মে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ আছে। — ফাইল চিত্ৰ

(This Is Only An Advertisement For Information Purposes And Not A Prospectus Announcement, Not For Distribution Outside India.)

## SILKFLEX SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED

Our Company was originally incorporated on May 13, 2016 as "Silkflex Polymers (India) Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the status of the Company was changed to public limited Company and the name of our Company was changed from "Silkflex Polymers (India) Private Limited" to "Silkflex Polymers (India) Limited" vide fresh certificate of incorporation dated December 21, 2023 by the Registrar of Companies, Kolkata. The Corporate Identification Number of our Company is U51909WB2016PLC215739. For further details on incorporation and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 155 of the Prospectus

> Registered Office: Daga Complex, Sulati Jaladhulagori, Sankrail, Howrah - 711 302, West Bengal, India Tel: +91 9674912615 | E-mail: investors@silkflexindia.in | Website: www.silkflexindia.in

Contact Person: Mr. Sourabh Sharma, Company Secretary and Compliance Officer PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. TUSHAR LALIT KUMAR SANGHAVI, MS. URMI RAJ MEHTA,

M/S. TUSHAR LALITKUMAR SANGHAVI HUF AND M/S. LALITBHAI H SANGHVI HUF The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are propose

**BASIS OF ALLOTMENT** 

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 34.82.000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED ("SPIL OR "OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹52/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹42/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1.810.64 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 1.78.000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 92.56 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 33.04.000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 52/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1.718.08 LAKHS ("NET ISSUE"), THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.00% AND 28.47% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 250 OF THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.2 TIMES OF THE FACE VALUE

### ISSUE

to be listed on Emerge Platform of NSE (NSE EMERGE).

#### ISSUE OPENED ON: TUESDAY, MAY 07, 2024 ISSUE CLOSED ON: FRIDAY, MAY 10, 2024

**RISK TO INVESTORS** 

Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above

The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below

Sr. No.	Name of the Promoters	No of Equity Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghavi	66,65,450	6.81
2.	Ms. Urmi Raj Mehta	48,750	10.77
3.	M/s Tushar Lalitkumar Sanghavi HUF	9,10,000	6.18
4.	M/s Lalitbhai H. Sanghvi HUF	4,87,500	3.08

Investors are required to refer section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus

Our Company has filed the Prospectus dated May 01, 2024 with the ROC. Kolkata (the "Prospectus"). The Equity Shares of the Company are proposed to be listed or the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited i.e., NSE Emerge, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated April 30, 2024. NSE is the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is to be commenced on May 15, 2024 (Subject to receipt of listing and trading approvals from the NSE). The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public is initially made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public is made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designatio Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the irrespective bank accounts and / or UPI IDs, in case of Rils, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same

#### SUBSCRIPTION DETAILS

The Net Issue has received 34.418 applications before technical rejections for 12.27.48.000 Equity Shares resulting in 37.15 times subscription. The details of the applications received in the Net Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

**Detail of the Applications Received** 

	Gr	oss	Less: Re	ejections*	Valid		
Category	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares	
Non-Retail Investors	3,390	6,06,92,000	36	1,88,000	3,354	6,05,04,000	
Retail Individual Investors	31,028	6,20,56,000	830	16,60,000	30,198	6,03,96,000	
TOTAL	34,418	12,27,48,000	866	18,48,000	33,552	12,09,00,000	

This includes 312 applications for 6.24.000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by

The Net Issue does not include 1,78,000 Equity Shares reserved for Market Maker, which was subscribed by 1.00 time. There were 866 Technical Rejections for 18,48,000 Equity Shares. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange - NSE

on May 13, 2024

A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 1,78,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Applied for	Received	% to Total	Shares Applied	% to Total	Applicant	to the Applicant	Shares Allotted	% to Total
1,78,000	1	100.00	1,78,000	100.00	1,78,000	1:1	1,78,000	100.00
200 200 22	etail Individual Investor			1.001.00		atment to the Detail I	11.01.00	321

of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of share: allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.56 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under

No. of Shares	No. of Applications	% to	Total No. of	% to	Allocation p	er Applicant	Datie of	Ratio of Allottees Total No. of		% to
Applied for	Received	Total	Shares Applied	Total	Before Rounding off	After Rounding off	to the Applicant			
2000	30,198	100.00	6,03,96,000	100.00	54.71	2000	0 25 914		16,52,000	100.00

C) Allocation to Other than Retails Category (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Non-Retail Investors, at the Issue Price of ₹52/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 16,52,000 Equity Shares. The category was subscribed by 36.62 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under

No of Chases	No. of	0/ 40	Total No. of	0/ 10		Allocation p	er Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant		Total No. of shares allocated/alloted
No. of Shares Applied for	Applications Received		Total No. of Shares Applied	35.00		Before Rounding off 109.22	After Rounding off			
4,000	2,253		90,12,000	14.89			2,000	41	751	2,46,000
6,000	213	6.35	12,78,000	2.11	34,894	163.82	2,000	17	213	34,000
8,000	139	4.14	11,12,000	1.84	30,362	218.43	2,000	15	139	30,000
10,000	111	3.31	11,10,000	1.83	30,307	273.04	2,000	5	37	30,000
12,000	50	1.49	6,00,000	0.99	16,382	327.64	2,000	4	25	16,000
14,000	26	0.78	3,64,000	0.60	9,939	382.27	2,000	5	26	10,000
16,000	36	1.07	5,76,000	0.95	15,727	436.86	2,000	2	9	16,000
20,000	179	5.34	35,80,000	5.92	97,748	546.08	2,000	49	179	98,000
22,000	22	0.66	4,84,000	0.80	13,215	600.68	2,000	7	22	14,000
30,000	17	0.51	5,10,000	0.84	13,925	819.12	2,000	7	17	14,000
38,000	7	0.21	2,66,000	0.44	7,263	1,037.57	2,000	4	7	8,000
40,000	16	0.48	6,40,000	1.06	17,475	1,092.19	2,000	9	16	18,000
50,000	10	0.30	5,00,000	0.83	13,652	1,365.2	2,000	7	10	14,000
52,000	4	0.12	2,08,000	0.34	5,679	1,419.75	2,000	3	4	6,000

The Board of Directors of the Company at its meeting held on May 13, 2024, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

9,502

1,583.67

2,000

0.58

The CAN and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories on or before May 14, 2024. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking of funds will process on or prior to May 14, 2024. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the Emerge Platform of NSE within 3 working days from the Closure of the Issue. The trading is proposed to be commenced on May 15, 2024 subject to receipt of listing and trading approvals from NSE.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated May 01, 2024 ("Prospectus").

#### INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at www.bigshareonline.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole Applicant. Serial number of the Application Form, Number of Shares Applied for and Bank Branch where the Application had been lodged and payment details at the address given below: **BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** 

58,000

Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai - 400 093, Maharashtra, India | Telephone: 022 - 6263 8200 | E-mail: ipo@bigshareonline.com Investor Grievance E-mail: investor@bigshareonline.com | Website: www.bigshareonline.com

3,48,000

Contact Person: Mr. Vinayak Morbale | SEBI Registration Number: INR000001385 All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated May 01, 2024.

For Silkflex Polymers (India) Limited On Behalf of the Board of Directors

DIN: 07476030

Mr. Tushar Lalit Kumar Sanghav Designation: Chairman & Managing Directo

Place: Howrah Date: May 13, 2024

PROSPECTS OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED Silkflex Polymers (India) Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other

LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS

considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata on May 01, 2024. The Prospectus is available on websites of the Company, the NSE and the Lead Manager at www.silkflexindia.in, www.nseindia.com, www.shreni.in respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high-risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including section titled "Risk Factors" beginning on page

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities law. Accordingly, the Equity Shares are offered or sold (i) within the United States to persons reasonably believed to be qualified institutional investors (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act and (iii) Outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities act and applicable laws of the jurisdiction where such offers and sales occur. AdBaaz